



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 1974/ज्येष्ठ 20, 1896

No. 141]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 1974/JYAISTHA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 10th June, 1974

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Foodgrains Movement Restrictions (Exemption of Seeds) Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Foodgrains Movement Restrictions (Exemption of Seeds) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. For clause 3 of the Foodgrains Movement Restrictions (Exemption of Seeds) Order, 1970, the following clause shall be substituted, namely:—

“3. Exemption for certified seeds.—Nothing contained in any Order imposing restrictions on the movement of foodgrains (including seeds thereof) made by the Central Government or a State Government shall apply to the movement or transportation, by any person, of certified seeds:

Provided that such movement or transportation takes place only in sealed packs, containers or bags, each such pack, container or bag containing not more than fifty kilograms of certified seeds.”

[No. 4(Genl)(7)/74-WT(I)-12]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

## कृषि मंत्रालय

## (खाद्य विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 10 जून, 1974

सांका० नि० 262(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न संचालन निर्बन्धन (बीजों को छूट) आदेश, 1970 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम खाद्यान्न संचालन निर्बन्धन (बीजों को छूट) संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. खाद्यान्न संचालन निर्बन्धन (बीजों को छूट) आदेश, 1970 के खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. प्रमाणित बीजों के लिए छूट—खाद्यान्न (उनके बीजों सहित) के संचालन पर निर्बन्धन अधिरोपित करने वाले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में की कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बीजों के संचालन या परिवहन को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा संचालन या परिवहन केवल सील बन्द पैकेजों, आधानों या थैलों में किया जाता है और ऐसे प्रत्येक पैकेज, आधान या थैले में प्रमाणित बीजों का पचास किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ।”

[सं० 4(जनरल) (7)/74—डब्ल्यू० टी० (आई)—12]

एल० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव ।